



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मई 23—मई 29, 2010, शनिवार/ज्येष्ठ 2—ज्येष्ठ 8, 1932
No. 10] NEW DELHI, MAY 23—MAY 29, 2010, SATURDAY/JYAISTHA 2—JYAISTHA 8, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मई, 2010

का.नि.आ. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आर्डिनेंस कारखाना सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्डिनेंस कारखाना सेवा (समूह 'क') भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय आर्डिनेंस कारखाना सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची-2 में,—

(i) अनुसूची-2 में, क्रम सं. 7 के सामने, स्तंभ (2) में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(क) अपर महानिदेशक आर्डिनेंस कारखाना/सदस्य, आर्डिनेंस कारखाना बोर्ड (75,500-80,000 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	67,000-79,000 रु. के वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में एक वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर 67,000-79,000 रु. के वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने 67,000-79,000 रु. के वेतनमान के और वेतन बैंड-4 (37,400-67,000 रु.+ग्रेड वेतन 10,000 रु.) के ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चार वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की हो।”
---	------------------	--

(ii) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

<p>“महानिदेशक आर्डिनेंस कारखाना/ प्रोन्नति द्वारा अध्यक्ष, आर्डिनेंस कारखाना बोर्ड (80,000 रु. नियत)</p>	<p>अपर महानिदेशक/सदस्य (75,500-80,000 रु.) जिसने उस श्रेणी में एक वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर ऐसा अपर महानिदेशक/सदस्य जिसने ज्येष्ठ महाप्रबंधक/ज्येष्ठ उप महानिदेशक (67,000-79,000 रु.) के रूप में और अपर महानिदेशक/सदस्य के रूप में दो वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो।”</p>
--	--

[फा. सं. 7 (11)/2008-डी (एफवाई-1)]

शुभोमय सेन, अवर सचिव

टिप्पणः—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 4, में का.नि.आ. 227, तारीख 1 अक्टूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें का.नि.आ. सं. 18 तारीख 17 जुलाई, 2009 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th May, 2010

S.R.O. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules further to amend the Indian Ordnance Factories Service (Group A) Recruitment Rules, 2002, namely:—

- (i) These Rules may be called the Indian Ordnance Factories Service (Group A) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule-II to the Indian Ordnance Factories Service (Group A) Recruitment Rules, 2002,

- (i) In Schedule-II, against serial number 7, in column (2), for item (a), the following item shall be substituted, namely:—

<p>“(a) Additional Director General of Ordnance Factories/Member Ordnance Factories Board (Rs.75,500-80,000)</p>	<p>By Promotion Officers in the pay scale of Rs.67,000-79,000 with one year regular service in the grade failing which Officers in the pay scale of Rs.67,000-79,000 with four years combined regular service in the pay scale of Rs.67,000-79,000 and Senior Administrative Grade in PB-4 (Rs.37,400-67,000 + Grade Pay Rs.10,000)”</p>
--	--

(ii) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be substituted, namely :—

<p>“8. Director General of Ordnance Factories/ Chairman, Ordnance Factories Board (Rs.80,000)</p>	<p>By Promotion Additional Director General/ Member (Rs.75,500-80,000) with one year regular service in the grade failing which Additional Director General/ Member with two years combined regular service as Senior General Manager/ Senior Deputy Director General (Rs.67,000-79,000) and as Additional Director General Member.”</p>
---	--

[F. No. 7(11)/2008-D (Fy.I)]

SUBHOMOY SEN, Under Secy.

Note:—The Principle rules were published in Part-II, Section-IV of the Gazette of India *vide* SRO No.227 dated the 1st October, 2002 and subsequently amended *vide* SRO No.18 dated the 17th July, 2009.

नई दिल्ली, 13 मई, 2010

का.नि.आ. 22.—केन्द्रीय सरकार सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 191 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना नियम, 1954 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम सेना (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 13 का संशोधन-सेना नियम, 1954 के नियम 13 की सारणी में,—

(क) स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट कनिष्ठ आयुक्त ऑफिसर प्रवर्ग के सामने, स्तम्भ 2 में, मद “I(ii)” तथा स्तम्भ 3 और स्तम्भ 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उन्मोचन के आधार	उन्मोचन प्राधिकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	उन्मोचन की रीति
2	3	4
“I(ii) (क) उसके चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी निम्न चिकित्सा प्रवर्ग आकार 2/3 में पाए जाने पर और जब :— (i) यूनिट में कोई आश्रय नियुक्ति उपलब्ध नहीं है, या (ii) वह संगठन में अधिशिष्ट है।	कमान आफिसर	व्यष्टि को निर्मुक्त चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशों पर सेवा से उन्मोचित किया जाएगा।”;

(ख) स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग वारंट आफिसर के सामने, स्तम्भ 2 में, मद “II(ii)” तथा स्तम्भ 3 और स्तम्भ 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उन्मोचन के आधार	उन्मोचन प्राधिकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	उन्मोचन की रीति
2	3	4
“II(ii) (क) उसके चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी निम्न चिकित्सा प्रवर्ग आकार 2/3 में पाए जाने पर और जब :— (i) यूनिट में कोई आश्रय नियुक्ति उपलब्ध नहीं है, या (ii) वह संगठन में अधिशिष्ट है।	कमान आफिसर	व्यष्टि को निर्मुक्त चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशों पर सेवा से उन्मोचित किया जाएगा।”;

(ग) स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन अभ्यावेशित व्यक्ति, जिनको शपथ दिलाई गई है के प्रवर्ग के सामने, स्तम्भ 2 में, मद “III(iii)” तथा स्तम्भ 3 और स्तम्भ 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उन्मोचन के आधार	उन्मोचन प्राधिकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	उन्मोचन की रीति
2	3	4
“III(iii) (क) उसके चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी निम्न चिकित्सा प्रवर्ग आकार 2/3 में पाए जाने पर और जब :— (i) यूनिट में कोई आश्रय नियुक्ति उपलब्ध नहीं है, या (ii) वह संगठन में अधिशिष्ट है।	कमान आफिसर	व्यष्टि को निर्मुक्त चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशों पर सेवा से उन्मोचित किया जाएगा।”

[फा. सं.-ए/32395/एमपी-3/13(1)/2009/डी(एजी)]

जे. राँय चौधरी, अवर सचिव

पाद टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4, तारीख 27 नवम्बर, 1954 में का.नि.आ. 484, तारीख 27 नवम्बर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 8(अ), तारीख 23 जून, 2003 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

New Delhi, the 13th May, 2010

S.R.O. 22.—In exercise of the powers conferred by Section 191 of the Army Act, 1950 (XLVI of 1950), and all other powers enabling in this behalf, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Army Rules, 1954, namely, —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Army (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 13 - In rule 13 of the Army Rules, 1954, in the Table,—

(a) against the category Junior Commissioned Officer specified in column 1, in column 2, after item “I. (ii)” and the entries relating thereto in columns 3 and 4, the following item and entries shall respectively be inserted, namely,—

Grounds of discharge	Competent authority to authorise discharge	Manner of discharge
2	3	4
“I.(ii) (a) Having been found to be in permanent low medical category SHAPE 2/3 by a medical board and when :— (i) no sheltered appointment is available in the unit, or (ii) is surplus to the organization.	Commanding Officer	The individual will be discharged from service on the recommendations of Release Medical Board.”;

(b) against the category Warrant Officer specified in column 1, in column 2, after item “(II). (ii)” and the entries relating thereto in columns 3 and 4, the following item and entries shall respectively be inserted, namely, —

Grounds of discharge	Competent authority to authorise discharge	Manner of discharge
2	3	4
“II. (ii) (a) Having been found to be in permanent low medical category SHAPE 2/3 by a medical board and when :— (i) no sheltered appointment is available in the unit, or (ii) is surplus to the organization.	Commanding Officer	The individual will be discharged from service on the recommendations of Release Medical Board.”;

(c) against the category Persons enrolled under the Act who have been attested specified in column 1, in column 2, after item “III. (iii)” and the entries relating thereto in columns 3 and 4, the following item and entries shall respectively be inserted, namely,—

Grounds of discharge	Competent authority to authorise discharge	Manner of discharge
2	3	4
“III. (iii) (a) Having been found to be in permanent low medical category SHAPE 2/3 by a medical board and when :— (i) no sheltered appointment is available in the unit, or (ii) is surplus to the organization.	Commanding Officer	The individual will be discharged from service on the recommendations of Release Medical Board.”.

[F. No.-A/32395/MP-3/13(1)/2009/D (AG)]

J. ROY CHOWDHURY, Under Secy.

Foot Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part -II, Section 4 dated the 27th November, 1954, *vide* S.R.O. 484, dated the 27th November, 1954 and lastly amended, *vide* notification number S.R.O. 8(E), dated the 23rd June, 2003.